

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-05072025-264415  
SG-DL-E-05072025-264415असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196]	दिल्ली, बुधवार, जुलाई 2, 2025/आषाढ़ 11, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 115
No. 196]	DELHI, WEDNESDAY, JULY 2, 2025/ASHADHA 11, 1947	[N. C. T. D. No. 115

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIवित्त (व्यय-I) विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 30 जून, 2025

सं. 11/2023-राज्य कर (दर)

फा. सं. 3 (12)/वित्त (व्यय-I)/2025-26/डीएस- I/596.—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इस सरकार की अधिसूचना संख्या 01/2017-राज्य कर (दर), जिसे दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उपखंड (i) संख्या सं फा. 3(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/382, दिनांक 30 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में,

(i) अनुसूची में—

(क) कम संख्या 227 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित कम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:—

(1)	(2)	(3)
“227क	कोई भी अध्याय	“विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे”— स्पष्टीकरण: दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (102क) में

		यथा—परिभाषित अनुयोज्य दावे से — (i) दांव लगाने; (ii) कैसिनो; (iii) द्यूतक्रीड़ा; (iv) घुड़दौड़; (v) लाटरी; या (vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना, में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है।;
--	--	--

(ख) क्रम संख्या 228 और 229 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (v) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

“(vi) इस अधिसूचना में जो शब्द प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए हैं लेकिन दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) में परिभाषित किए गए हैं, उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में दिए गए हैं।”

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2023 को लागू होगी।

**नोट: —** प्रधान अधिसूचना संख्या 01/2017 —राज्य कर (दर), दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उप-खंड (i), संख्या सं फा.3(15)/वित्त (राजस्व- I)/2017-18/डीएस-VI/382, दिनांक 30 जून, 2017 को प्रकाशित हुई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 09/2023 — राज्य कर (दर), संख्या सं फा. 3(24)/वित्त (व्यय-I)/2023-24/डीएस- I/149, दिनांक 15-02-2024 के द्वारा संशोधन किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव (वित्त)

## FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 30th June, 2025

**No. 11/2023-State Tax(Rate)**

**F. No. 3 (12)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/596.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Government's Notification No. 01/2017- State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382, dated 30<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification,

(i) in Schedule IV-

(a) after S. No. 227 and the entries related thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"227A	Any Chapter	Specified actionable claim;  <i>Explanation:</i> “specified actionable claim” as defined in section 2(102A) of the Delhi Goods and Service Tax Act, 2017 (03 of 2017) means the actionable claim involved in or by way of—  (i) betting; (ii) casinos; (iii) gambling;

		(iv) horse racing; (v) lottery; or (vi) online money gaming;”;
--	--	--

(b) S. No. 228 and 229 and the entries relating thereto shall be omitted.

(ii) in the *Explanation*, after clause (v), the following clause shall be inserted, namely:

"(vi) The words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Delhi Goods and Service Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts."

2. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of October, 2023.

**Note:** -The principal notification number 01/2017 -State Tax (Rate), was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382, dated 30<sup>th</sup> June, 2017 and was last amended vide notification number 09/2023-State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (24)/Fin(Exp-I)/2023-24/DS-I/149, dated 15<sup>th</sup> February, 2024.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
RAVINDER KUMAR, Jt. Secy. (Fin.)